

Tit

Chapter 2

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

- 1 Σὺ δὲ λάλει ἃ πρέπει τῆ ὑγαινούση διδασκαλία:
तु और बोल जो योग्य-है उस स्वस्थ शिक्षा:
[G4771](#) [G1161](#) [G2980](#) [G3739](#) [G4241](#) [G3588](#) [G5198](#) [G1319](#)

किन्तु तुम सदा ऐसी बातें बोला करो जो सदशिक्षा के अनुकूल हों।

- 2 πρεσβύτας νηφαλίου εἶναι, σεμνούς, σώφρονας, υἱαίνοντας τῆ πίστει, τῆ
बोओधि-पुरुश सचेत होन, सभय, सन्यमि, स्वस्थ मेइन विश्वास, मेइन
[G4246](#) [G3524](#) [G1510](#) [G4586](#) [G4998](#) [G5198](#) [G3588](#) [G4102](#) [G3588](#)
ἀγάπη, τῆ ὑπομονῆ;
प्रेम, मेइन धैर्य;
[G0026](#) [G3588](#) [G5281](#)

वृद्ध पुरुषों को शिक्षा दो कि वे शालीन और अपने पर नियन्त्रण रखने वाले बनें। वे गंभीर, विवेकी, प्रेम और विश्वास में दृढ़ और धैर्यपूर्वक सहनशील हों।

- 3 πρεσβύτιδας ὡσαύτως, ἐν καταστήματι ἱεροπρεπεῖς, μὴ διαβόλους, μηδὲ
बोओधि-महिलयेन इसि-प्रकअर, मेइन अअचरन पवित्र-योग्य, नहिन निन्दक, न-हि
[G4247](#) [G5615](#) [G1722](#) [G2688](#) [G2412](#) [G3361](#) [G1228](#) [G3366](#)
οἷνω πολλῶ δεδουλωμένας, καλοδιδασκάλους,
दअरु बहुत दअसि, भलअयि-सिखअनेवलि,
[G3631](#) [G4183](#) [G1402](#) [G2567](#)

इसी प्रकार वृद्ध महिलाओं को सिखाओ कि वे पवित्र जनों के योग्य उत्तम व्यवहार वाली बनें। निन्दक न बनें तथा बहुत अधिक दाखमधु पान की लत उन्हें न हो। वे अच्छी-अच्छी बातें सिखाने वाली बनें।

- 4 ἵνα σωφρονίζωσιν τὰς νέας, φιλάνδρους εἶναι, φιλοτέκνους,
तअकि समझअयेन उन जवअनोन, पति-प्रेमि होन, बचचे-प्रेमि,
[G2443](#) [G4994](#) [G3588](#) [G3501](#) [G5362](#) [G1510](#) [G5388](#)

ताकि युवतियों को अपने-अपने बच्चों और पतियों से प्रेम करने की सीख दे सकें।

- 5 σώφρονας, ἀγνάς, οἰκουρούς, ἀγαθὰς, ὑποτασσομένας τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν,
सन्यमि, पवित्र, घर-रखने-वअलि, भलेए, अधेएन-रहनेवलि उन अपने पतियों,
[G4998](#) [G0053](#) [G3626](#) [G0018](#) [G5293](#) [G3588](#) [G2398](#) [G0435](#)
ἵνα μὴ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ βλασφημηῆται.
तअकि नहिन वोह वचन उस परमेशवर-क निन्द-हो.
[G2443](#) [G3361](#) [G3588](#) [G3056](#) [G3588](#) [G2316](#) [G0987](#)

जिससे वे संयमी, पवित्र, अपने-अपने घरों की देखभाल करने वाली, दयालु अपने पतियों की आज्ञा मानने वाली बनें जिससे परमेश्वर के वचन की निन्दा न हो।

- 6 Τοὺς νεωτέρους, ὡσαύτως, παρακάλει σωφρονεῖν,
उन जवअनोन, इसि-प्रकअर, समझअ सन्यमि-होन,
[G3588](#) [G3501](#) [G5615](#) [G3870](#) [G4993](#)

इसी तरह युवकों को सिखाते रहो कि वे संयमी बनें।

7 περὶ πάντα σεαυτὸν παρεχόμενος τύπον καλῶν ἔργων; ἐν τῇ
के-बअरे-मेइन सब अपने-अअप-को दिखअते-हुए अअदरश भलेए करमोन; मेइन उस
[G4012](#) [G3956](#) [G4572](#) [G3930](#) [G5179](#) [G2570](#) [G2041](#) [G1722](#) [G3588](#)

διδασκαλίᾳ ἀφθορίαν, σεμνότητα,
शिकश शुद्धतअ, गमभेएरतअ,
[G1319](#) [G0861](#) [G4587](#)

तुम अपने आपको हर बात में आदर्श बनाकर दिखाओ। तेरा उपदेश शुद्ध और गम्भीर होना चाहिए।

8 λόγον ὕγιῃ, ἀκατάγνωστον, ἵνα ὁ ἐξ ἐναντίας ἐντραπή, μηδὲν ἔχων
वचन स्वस्थ, निरदोश, तअकि वोह से विरोधि लज्जित-हो, कुछ-नहिन रखते-हुए
[G3056](#) [G5199](#) [G0176](#) [G2443](#) [G3588](#) [G1537](#) [G1727](#) [G1788](#) [G3367](#) [G2192](#)

λέγειν περὶ ἡμῶν φαῦλον.
कहने के-बअरे-मेइन हमअरे बुर.
[G3004](#) [G4012](#) [G1473](#) [G5337](#)

ऐसी सद्गुणी का प्रयोग करो, जिसकी आलोचना न की जा सके ताकि तेरे विरोधी लज्जित हों क्योंकि उनके पास तेरे विरोध में बुरा कहने को कुछ नहीं होगा।

9 δούλους ἰδίους δεσποταίς ὑποτάσσεσθαι, ἐν παῖσιν εὐαρέστους εἶναι, μὴ
दअसेन अपने सबअमियोन अधेएन-रहेइन, मेइन सबोन प्रसन्न-करनेवले होन, नहिन
[G1401](#) [G2398](#) [G1203](#) [G5293](#) [G1722](#) [G3956](#) [G2101](#) [G1510](#) [G3361](#)

ἀντιλέγοντας;
विरोध-करनेवले;
[G0483](#)

दासों को सिखाओ कि वे हर बात में अपने स्वामियों की आज्ञा का पालन करें। उन्हें प्रसन्न करते रहे। उलट कर बात न बोले।

10 μὴ νοσφιζομένους, ἀλλὰ παῖσαν πίστιν ἐνδεικνυμένους ἀγαθὴν, ἵνα τὴν
नहिन चुरअनेवले, परन्तु सब विश्वअस्योग्यतअ दिखअनेवले भलेए, तअकि उस
[G3361](#) [G3557](#) [G0235](#) [G3956](#) [G4102](#) [G1731](#) [G0018](#) [G2443](#) [G3588](#)

διδασκαλίαν τὴν τοῦ Σωτήρος ἡμῶν, Θεοῦ, κοσμῶσιν ἐν παῖσιν.
शिकश उस उस उदधरकरत हमरे, परमेशवर, सुशोभित-करेइन मेइन सबोन.
[G1319](#) [G3588](#) [G3588](#) [G4990](#) [G1473](#) [G2316](#) [G2885](#) [G1722](#) [G3956](#)

चोरी चालाकी न करें। बल्कि सम्पूर्ण विश्वसनीयता का प्रदर्शन करें। ताकि हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की हर प्रकार से शोभा बढ़े।

11 Ἐπεφάνη γὰρ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, σωτήριος παῖσιν ἀνθρώποις;
प्रगतित-हुअ क्योनकि वोह अनुग्रह उस परमेशवर-क, उदधर-करनेवल सब मनुश्यों;
[G2014](#) [G1063](#) [G3588](#) [G5485](#) [G3588](#) [G2316](#) [G4992](#) [G3956](#) [G0444](#)

क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह सब मनुष्यों के उद्धार के लिए प्रकट हुआ है।

12 παιδεύουσα ἡμᾶς ἵνα, ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς κοσμικὰς
सिखलअनेवल हमेन तअकि, इनकअर-करके उस अधरम और उन सनसअरिक
[G3811](#) [G1473](#) [G2443](#) [G0720](#) [G3588](#) [G0763](#) [G2532](#) [G3588](#) [G2886](#)

ἐπιθυμίας, σωφρόνως καὶ δικαιῶς καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν, ἐν τῷ νῦν
इच्छओन, सन्यम-से और धरम-से और भक्ति-से जियेइन, मेइन इस वरतमअन
[G1939](#) [G4996](#) [G2532](#) [G1346](#) [G2532](#) [G2153](#) [G2198](#) [G1722](#) [G3588](#) [G3568](#)

αἰῶνι;
युग;
[G0165](#)

इससे हमें सीख मिलती है कि हम परमेश्वर विहीनता को नकारें और सांसारिक इच्छाओं का निषेध करते हुए ऐसा जीवन जीयें जो विवेकपूर्ण नेक, भक्ति से भरपूर और पवित्र हो। आज के इस संसार में

- 13 προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα, καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ
 इन्तज़ार-करते-हुए उस धन्य अश, और प्रगत्य उस महिम उस
[G4327](#) [G3588](#) [G3107](#) [G1680](#) [G2532](#) [G2015](#) [G3588](#) [G1391](#) [G3588](#)
- μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν, Χριστοῦ Ἰησοῦ;
 महान परमेशवर और उदधरकरत हमरे, खरिस्तोस येशु;
[G3173](#) [G2316](#) [G2532](#) [G4990](#) [G1473](#) [G5547](#) [G2424](#)

आशा के उस धन्य दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे परम परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा प्रकट होगी।

- 14 ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα λυτρώσῃται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης
 जिस-ने दिय अपने-अअप के-लिये हमअरे, तअकि छुदअ-ले हमेन से सभि
[G3739](#) [G1325](#) [G1438](#) [G5228](#) [G1473](#) [G2443](#) [G3084](#) [G1473](#) [G0575](#) [G3956](#)
- ἀνομίας, καὶ καθάρισιν ἑαυτῶν λαὸν περιούσιον, ζηλωτῆν καλῶν ἔργων.
 अपअधरमि, और शुदध-करे अपने-लिये प्रजओन अपनि, जलशिएल भलेए करमोन.
[G0458](#) [G2532](#) [G2511](#) [G1438](#) [G2992](#) [G4041](#) [G2207](#) [G2570](#) [G2041](#)

उसने हमारे लिये अपने आपको दे डाला। ताकि वह सभी प्रकार की दुष्टताओं से हमें बचा सके और अपने चुने हुए लोगों के रूप में अपने लिये हमें शुद्ध कर ले — हमें, जो उत्तम कर्म करने को लालायित हैं।

- 15 Ταῦτα λάλει, καὶ παρακάλει, καὶ ἔλεγχε μετὰ πάσης ἐπιταγῆς. μηδεὶς
 ये बोल, और समझअ, और दअन्त के-सअथ सभि अथिकअर. कोइ-नहिन
[G3778](#) [G2980](#) [G2532](#) [G3870](#) [G2532](#) [G1651](#) [G3326](#) [G3956](#) [G2003](#) [G3367](#)
- σου περιφρονεῖτω.
 तेर तुछसमझे.
[G4771](#) [G4065](#)

इन बातों को पूरे अधिकार के साथ कह और समझाता रह, उत्साहित करता रह और विरोधियों को झिड़कता रह। ताकि कोई तेरी अनसुनी न कर सके।